



लोग षडयंत्र रचा करते हैं। उनके उत्तेजित मन भाड़ से धधकते हैं। उनकी उत्तेजनार्ये सारी रात धधका करती हैं, और सुबह होते होते वह जलती हुई आग सी तेज हो जाती हैं।

7  
 אֵין- नहीं- H0369  
 נָפְלוּ गिरे H5307  
 מַלְכֵיהֶם राजाओं-उनके H4428  
 כָּל- सब- H3605  
 שְׂפָטֵיהֶם न्यायाधीशों-उनके H8199  
 אֶת- को- H0853  
 וְאָכְלוּ और-खाते-हैं H0398  
 כַּתְנוֹר תन्दूर-जैसे H8574  
 וַיִּחַמוּ गर्म-होते-हैं H2552  
 כָּל־ सब H3605

אֵלֵי: मुझे H0413  
 בָּהֶם उनमें H0413  
 קָרָא पुकारता-है H7121

वे सारे लोग भभकते हुये भाड़ से हैं, उन्होंने अपने राजाओं को नष्ट किया था। उनके सब शासको का पतन हुआ था। उनमें से कोई भी मेरी शरण में नहीं आया था।”

8  
 אֶפְרַיִם एप्रेम H0669  
 בְּעַמִּים में-लोगों H0669  
 הוּא वह H1931  
 יִתְבּוֹלֵל मिलाया-जाता-है H0669  
 אֶפְרַיִם एप्रेम H0669  
 הָיָה हुआ H1961  
 עֲנָה रोटी H5692  
 בְּלִי बिना H1097  
 הַפּוֹכָה: पलटी-हुई H2015

एप्रेम दूसरी जातियों के संग मिला जुला करता है। एप्रेम उस रोटी सा है जिसे दोनो ओर से वहीं सेका गया है।

9  
 אֶבְרָהָם एब्रहाम H1931  
 וְהוּא और-वह H1931  
 לֹא नहीं H3808  
 זָרִים पराए-ने H1931  
 כָּחוֹ बल-उसका H1931  
 וְהוּא और-वह H1931  
 לֹא नहीं H3808  
 יָדַע जानता H3045  
 גַּם- भी- H1571  
 שִׁיבָה सफेदी H7872  
 זָרְקָה छिड़की-हुई H2236  
 בּוֹ उसमें H1931  
 וְהוּא और-वह H1931  
 לֹא नहीं H3808

יָדַע: जानता H3045

एप्रेम का बल गैरों ने नष्ट किया है किन्तु एप्रेम को इसका पता नहीं है। सफेद बाल भी एप्रेम पर छिटका दिये गये हैं किन्तु एप्रेम को इसका पता नहीं है।

10  
 אֶלֹהֵיהֶם एलोहीम-उनके H0430  
 וַיְהוּהוּ यहोवा H3068  
 אֶל- की-ओर- H0413  
 שָׁבוּ लौटे H7725  
 וְלֹא- और-नहीं- H3808  
 בְּפָנָיו मुँह-पर-उसके H6440  
 יִשְׂרָאֵל इस्राएल-का H3478  
 גָּאוֹן- घमण्ड- H1347  
 וַעֲנָה और-गवाही-देता-है H1347

וְלֹא और-नहीं H3808  
 בְּקִשְׁתּוֹ ढूँढा-उसे H1245  
 בְּכָל- में-सब- H3605  
 זֹאת: इस H2063

एप्रेम का अहंकार उसके विरोध में बोलता है। लोगों ने बहुतेरी यातनार्ये झेली हैं किन्तु वे अब भी अपने परमेश्वर यहोवा के पास नहीं लौटे हैं। लोग उसकी शरण में नहीं गये थे।

11  
 וַיְהִי और-हुआ H1961  
 אֶפְרַיִם एप्रेम H0669  
 כִּי־וְנָה कबूतर-जैसे H3123  
 פּוֹתָה मूर्ख H0369  
 אֵין बिना H0369  
 לֵב हृदय H4714  
 מִצְרַיִם मिस्र H4714  
 קָרָאוּ पुकारते-हैं H7121  
 אֲשׁוּר अशशूर H0804  
 הָלְכוּ जाते-हैं H1980

एप्रेम उस भोले कपोत सा बन गया है जिसके पास कुछ भी समझ नहीं होती है। लोगों ने मिस्र से सहायता मांगी और लोग अशशूर की शरण में गये।

12  
 כְּאֲשֶׁר जैसा H3212  
 יֵלְכוּ जाएँगे H3212  
 אֶפְרָוֶשׁ फैलाऊँगा H6566  
 עֲלֵיהֶם उन-पर H6566  
 רִשְׁתִּי जाल-मेरी H7568  
 כְּעוֹף पक्षी-जैसे H5775  
 הַשָּׁמַיִם आकाश-के H8064  
 אֲוִירָם उताऊँगा-उन्हें H3381  
 אִסְרָם बाँधूँगा-उन्हें H3256  
 כְּשָׁמַע सुनते-ही-जैसे H3256

לְעֲרֹתָם: सभा-उनकी-को H5712

वे उन देशों की शरण में जाते हैं किन्तु मैं जाल में उनको फसाऊँगा, मैं अपना जाल उनके ऊपर फेंकूँगा। मैं उनको ऐसे नीचे खींच लूँगा जैसे गगन के पक्षी खींच लिये जाते हैं। मैं उनको उनकी वाचाओं का दण्ड दूँगा।

13

וְאֵנֹכִי	בִּי	פָּשְׁעוֹ	כִּי-	לָהֶם	שָׂר	מִמֶּנִּי	נִדְרָו	כִּי-	לָהֶם	אֹי
और-मैं	मेरे-विरुद्ध	अपराध-किया	क्योंकि-	उनके-लिए	विनाश	मुझसे	भटक-गए	क्योंकि-	उनके-लिए	हाय
<a href="#">H0595</a>		<a href="#">H6586</a>		<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H7701</a>		<a href="#">H5074</a>		<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H0188</a>

אֶפְרָיִם	וְהִטָּה	דְּבָרָו	עָלַי	כְּזָבִים:
छुड़ाता-उन्हें	और-वे	बोले	मेरे-विरुद्ध	झूठ
<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H3577</a>

यह उनके लिये बुरा होगा उन्होंने मुझको मेरी बात मानने से इनकार किया। इसलिये उनको मिटा दिया जायेगा। मैंने उन लोगों को बचाया था किन्तु वे मेरे विरोध में झूठ बोलते हैं।

14

וְלֹא-	זָעַקוּ	אֵלַי	בְּלִבָּם	כִּי	יִלְלוּ	עַל-	מִשְׁכַּבְתָּם	עַל-	דָּגְנוֹ
और-नहीं-	दुहाई-देते-हैं	मुझसे	हृदय-में-अपने	क्योंकि	विलाप-करते-हैं	पर-	बिछौनों-उनके	पर-	अन्न
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2199</a>	<a href="#">H0413</a>			<a href="#">H3213</a>		<a href="#">H4904</a>		<a href="#">H1715</a>

וְתִירֹשׁ	יִתְגַּדְּרוּ	יִסְרוּ	בִּי:
और-नई-दाखरस	जमा-करते-हैं	मुड़ते-हैं	मुझसे
<a href="#">H8492</a>		<a href="#">H5493</a>	

वे कभी मन से मुझे नहीं पुकारते हैं। हाँ, बिस्तर में पड़े हुए वे पुकारा करते हैं। जब वे नया अन्न और नयी दाखमधु मांगते हैं तब पूजा के अंग के रूप में वे अपने अर्गों को स्वयं काटा करते हैं। किन्तु वे अपने हृदय में मुझ से दूर हुये हैं।

15

וְאֵנִי	יִסְרֵתִי	חִזְקֵתִי	זְרוּעֹתַם	וְאֵלַי	יִחְשְׁבוּ-	רָע:
और-मैं	अनुशासित-किया	मजबूत-किया	भुजाओं-उनकी	और-मेरे-विरुद्ध	सोचते-हैं-	बुरा
<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H3256</a>	<a href="#">H2388</a>	<a href="#">H2220</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2803</a>	

मैंने उन्हें सधाया था और उनकी भुजा बलशाली बनायी थी, किन्तु उन्होंने मेरे विरोध में षड़यंत्र रचे।

16

וְשֹׁבוּ	עָלַי	הָיוּ	כְּקִשָּׁת	רִמָּה	יִפְלוּ	בְּחַרְב	שָׂרֵיהֶם	מִזַּעַם
लौटते-हैं	ऊपर-को	हुए	धनुष-जैसे	धोखेबाज	गिरेंगे	से-तलवार	सरदार-उनके	क्रोध-के-कारण
<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7198</a>		<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H2195</a>

לְשׁוֹנָם	זוֹ	לְעַגְם	בְּאֶרֶץ	מִצְרַיִם:
जीभ-उनकी	यह	उपहास-उनका	में-भूमि	मिस्र-की
<a href="#">H3956</a>	<a href="#">H2097</a>	<a href="#">H3933</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4714</a>

वे झूठे देवों की ओर मुड़ गये। वे उस धुनष के समान बने जो झूठे लक्ष्य भेद करता है। उनके मुखियालोग अपनी ही शक्ति की शेखी बघारते थे, किन्तु उन्हें तलवार के घाट उतारा जायेगा। फिर लोग मिस्र में उन पर हँसेंगे।